



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

31 मार्च 2023

**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मार्च 2023**

मार्च 2023 के महीने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों पर आंकड़े।

**मुख्य विशेषताएं:**

**उधार दरें:**

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यूएलआर) जनवरी 2023 में 9.00 प्रतिशत से 24 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर फरवरी 2023 में 9.24 प्रतिशत हो गई।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर जनवरी 2023 में 9.58 प्रतिशत से 9 बीपीएस बढ़कर फरवरी 2023 में 9.67 प्रतिशत हो गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की माधिका फरवरी 2023 में 8.45 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 8.55 हो गई।
- दिसंबर 2022 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया अस्थायी दर रुपया ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) संबद्ध ऋणों का भाग 48.3 प्रतिशत था, जबकि एमसीएलआर संबद्ध ऋणों का भाग 46.1 प्रतिशत था।

**जमा दरें:**

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रुपया सावधि जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) जनवरी 2023 में 5.90 प्रतिशत से 12 बीपीएस बढ़कर फरवरी 2023 में 6.02 हो गई।